



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1933 (श0)

(सं0 पटना 330)

पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2011

कार्यापालक अभियंता
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

कार्यालय आदेश
1 जून 2011

सं0 सं0:- मु0 अ0 सं0 सि0 अनु0-286/10-805—जिला अनुकम्पा समिति भोजपुर आरा के ज्ञापांक 07, दिनांक 30 जून 2010 द्वारा की गयी अनुशंसा विभागीय निदेश के अनुपालन में स्व0 प्रधान कृष्ण नन्दन सिन्हा, पम्प चालक लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के आश्रित पुत्र श्री प्रधान संजय कुमार को लघु सिंचाई प्रमंडल आरा के अन्तर्गत रिक्त कार्यालय चपरासी के पद के विरुद्ध चतुर्थ श्रेणी पद पर वेतनमान 2550-3200 का पुनरीक्षित वेतनमान 4440-7440+ग्रेड पे0 1300 रु0 में तथा सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तो के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबधिक रूप से नियुक्त किया जाता है जिसे बिना कारण बताए रद्द किया जा सकता है।

(ii) श्री प्रधान संजय कुमार पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के समय उन्हें सहायक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-शल्य चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र विवाह में तिलक दहेज का लेन देन नहीं करने संबंधी, शपथ पत्र आय प्रमाण-पत्र, आवसीय प्रमाण-पत्र, न्यायालय में मुकदमा लंबित नहीं रहने के शपथ पत्र तथा स्व0 प्रधान कृष्णनन्दन सिन्हा के आश्रित सदस्यों का भरण पोषण संबंधी अद्यतन शपथ पत्र आदि मूल कागजात कार्यापालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच कार्यापालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा स्वयं करेंगे तथा उसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत करेंगे।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्टूबर 1991 की कंडिका 1 (ख) अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी थी का सत्यापन कार्यापालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा द्वारा करा लिया गया जायेगा।

(iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 05 अक्टूबर 1991 की कंडिका 7 के अनुसार नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा एक कारण पृच्छा प्राप्त कर इसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी इस संबंध में श्री प्रधान संजय कुमार को योगदान करने के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यापालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा,, जिसे उक्त पदाधिकारी श्री प्रधान संजय कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रहेंगे।

(v) गलत तथ्यों अथवा कागजातो के आधार पर नियुक्त होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होगी तो किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(vi) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 एवं संकल्प संख्या 2469, दिनांक 16 नवम्बर 2005 के अनुसार इस मामले में बिहार सरकारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

(vii) दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति की जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(viii) यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा।

(ix) योगदान करने हेतु श्री प्रधान संजय कुमार को यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 330-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>